

CLASS: 10

अंक योजना / MARKING SCHEME

Q.	ANSWER	अंक
1	B. उपभोग के लिए स्वच्छ जल की कमी B. scarcity of clean water for consumption	1
2	बी) हां, इस जोखिम को कम करने के लिए बिजली उत्पादन के वैकल्पिक तरीकों की खोज की जानी चाहिए। (B) Yes, alternative methods of power generation should be explored to minimise this risk.	1
3	(डी) अत्यधिक उपयोग के कारण पानी की कमी (d) water scarcity resulting from excessive utilization	1
4	(डी) एक शक्ति-साझाकरण व्यवस्था स्थापित करना जहां निर्णय लेने में दोनों समुदायों की भूमिका हो (d) establishing a power-sharing arrangement where both communities have a role in decision-making	1
5	B. लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शक्तियों का पृथक्करण आवश्यक है। B. Separation of powers is needed to strengthen democracy.	1
6	सी. दुकानों के हड़ताल पर जाने से डेयरी और पोल्ट्री उत्पादकों को नुकसान हुआ। C. Dairy and poultry producers suffered a loss when the shops went on strike.	1
7	C. अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य एक वर्ष के लिए तीनों क्षेत्रों के लिए जोड़ा जाता है C. The value of final goods and services is added up for all the three sectors for one year	1
8	डी. 'जो सबसे अधिक वंचित हैं उन्हें आदर्श रूप से सबसे अधिक सहायता मिलनी चाहिए' प्रश्न 8 के बदले में निम्नलिखित उत्तर केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है D. क और ख दोनों सत्य हैं लेकिन ख, क की व्याख्या नहीं करता है D. 'those who are the most disadvantaged should ideally get the most help' The following ANSWER is for Visually Impaired Students ONLY in lieu of Question 8 D. Both A and R are true but R does not explain A.	1
9	1-वह एक इतालवी क्रांतिकारी थे, जिनका जन्म 1807 में जेनोआ में हुआ था। 2-उन्हें लिगुरिया में क्रांति का प्रयास करने के लिए 1831 में 24 साल की उम्र में निर्वासन में भेज दिया गया था। 3-उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो गुप्त समाजों की स्थापना की। 4-उन्होंने इन समाजों के युवा सदस्यों को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 5-उनके विचारों का अनुसरण करते हुए और उनके गुप्त समाजों के मॉडल पर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में ऐसे और भी गुप्त समाज स्थापित किए गए। 6-ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक मैटरनिच ने एक बार उन्हें "हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन" बताया था। (कोई दो प्रासंगिक बिंदु) 1-He was an Italian revolutionary, who was born in Genoa in 1807. 2-He was sent into exile at the age of 24 in 1831 for attempting a revolution in Liguria. 3-He founded two secret societies, namely Young Italy and Young Europe. 4-He inspired the young members of these societies to involve in revolutionary activities. 5-Following his ideas and on the model of his secret societies, more such secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland. 6-Austrian Chancellor Duke Matternich once described him as "the most dangerous enemy of our social order." (ANY TWO RELEVANT POINTS)	2
10	1- निवास स्थान का विनाश, मुख्य रूप से अधिक जनसंख्या के कारण कृषि, खनन, औद्योगीकरण का विस्तार, 2- शहरीकरण और परिणामस्वरूप बड़े वन क्षेत्रों का सफाया। 3-शिकार और अवैध शिकार और जानवरों की खाल, दांत, हड्डियों, दांत, सींग आदि के अवैध व्यापार ने कई प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया है।	2

	<p>1-Habitat destruction, mainly due to overpopulation leading to expansion of agriculture, mining, industrialization, 2- urbanization and consequent wiping out of large forest areas. 3-Hunting and poaching and illegal trade of animal skin, tusks, bones, teeth, horns, etc have led many species to the verge of extinction.</p>	
<p>11</p>	<p>1-अन्य तीन जिनकी आवश्यकता नहीं है उन्हें अलग-अलग नौकरियां करनी चाहिए जिससे परिवार की कुल आय में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, उन्हें गाँव में बाँध, नहर या सड़क बनाने जैसी परियोजनाओं में नियोजित किया जा सकता है। -2-सरकार फसलों के परिवहन और भंडारण में कुछ पैसा निवेश कर सकती है, या बेहतर ग्रामीण सड़कें बना सकती है ताकि मिनी ट्रक हर जगह पहुंच सकें।</p> <p>3-दाल मिल स्थापित करने, कोल्ड स्टोरेज खोलने जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने से किसानों को आलू और प्याज जैसे अपने उत्पादों को स्टोर करने और कीमत अच्छी होने पर बेचने का अवसर मिल सकता है।-वन क्षेत्रों के पास के गांवों में, वे शहद संग्रह केंद्र शुरू कर सकते हैं जहां किसान आकर जंगली शहद बेच सकते हैं।</p> <p>4- ऐसे उद्योग स्थापित करना भी संभव है जो आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर, फल जैसी सब्जियों और कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण करते हैं, जिन्हें बाहरी बाजारों में बेचा जा सकता है और इस तरह रोजगार पैदा होता है।</p> <p>5- सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कुछ नया शुरू करने के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण देने की योजना बना सकती है, जिससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके। (कोई दो प्रासंगिक बिंदु)</p> <p>1-The other three who are not required should take up different jobs that would increase the total family income. For example, they can be employed in projects like building of dams, canals or roads in the village. 2-Government can invest some money in transportation and storage of crops, or make better rural roads so that mini-trucks reach everywhere. 3-Promotion of industries like setting up a dal mill, opening a cold storage could give an opportunity for farmers to store their products like potatoes and onions and sell them when the price is good. - In villages near forest areas, they can start honey collection centres where farmers can come and sell wild honey. 4- It is also possible to set up industries that process vegetables and agricultural produce like potato, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits, which can be sold in outside markets and thus generate employment. 5- Government can plan to give loans at lower rates of interest to people in rural areas to start something new thereby solving problems of underemployment. (ANY TWO RELEVANT POINTS)</p>	<p>2</p>
<p>12</p>	<p>1-स्थानीय ज्ञान: स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याओं और उन्हें हल करने के बारे में अधिक जानकारी होती है। 2-स्थानीय निर्णय-निर्धारण: स्थानीय लोग सीधे-सीधे निर्णय-प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। 3-स्थानीय प्रबंधन: स्थानीय लोग जानते हैं कि चीजों को कुशलतापूर्वक कैसे प्रबंधित करना है और पैसा कहां खर्च करना है। 4-संघर्ष कम होना: केंद्र, राज्यों और स्थानीय सरकार के बीच सत्ता साझा करने से संघर्ष कम होता है। 4-शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध जाँच: विकेंद्रीकरण से शक्ति की एकाग्रता और दुरुपयोग को रोका जा सकता है। 5-नागरिकता: विकेंद्रीकरण नागरिकों को सार्वजनिक मामलों में अधिक सक्रिय होने का मार्ग प्रदान करता है। 6-राजस्व प्रशासन: विकेंद्रीकरण राजस्व को प्रशासित करने और सेवाएं प्रदान करने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। (कोई दो प्रासंगिक बिंदु)</p> <p>1-Local knowledge: Local people have more knowledge about the problems in their area and how to solve them. 2-Local decision-making: Local people can directly participate in decision-making. 3-Local management: Local people know how to manage things efficiently and where to spend money. 4-Reduced conflict: Sharing power between the centre, states, and local government reduces conflict.</p>	<p>2</p>

	<p>4-Checks against abuse of power: Decentralization can prevent the concentration and abuse of power.</p> <p>5-Citizenship: Decentralization provides a way for citizens to become more active in public affairs.</p> <p>6-Revenue administration: Decentralization helps develop the capacity to administer revenue and provide services. (ANY TWO RELEVANT POINTS)</p>	
13	<p>1-इस अधिनियम को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से जल्दबाजी में पारित किया गया, हालांकि इसका भारतीय सदस्यों द्वारा पूरी तरह से विरोध किया गया था।</p> <p>2-इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की भारी शक्तियाँ दे दी थीं।</p> <p>3-इसमें राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए दो साल तक हिरासत में रखने की भी अनुमति दी गई।</p> <p>या</p> <p>1-फरवरी 1922 में असहयोग आन्दोलन की वापसी:</p> <p>2-गांधीजी को लगा कि आंदोलन कई जगहों पर हिंसक होता जा रहा है.</p> <p>3-उत्तर प्रदेश के चौरा चौरा में झड़प हुई.</p> <p>4- शराब की दुकान पर धरना दे रहे स्वयंसेवकों के एक समूह को एक पुलिस अधिकारी ने पीटा।</p> <p>5- इसके विरोध में किसानों के एक समूह ने थाने में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए।</p> <p>6-इस घटना से गांधीजी को सदमा लगा और उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया।</p> <p>1-This act was hurriedly passed through the Imperial Legislative Council, even though it was completely opposed by Indian members.</p> <p>2-It had given the Government enormous powers to repress political activities.</p> <p>3-It also permitted the detention of political prisoners without trial for two years.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>1-Withdrawal of Non-Cooperation Movement in February 1922:</p> <p>2-Gandhiji felt the movement was turning violent in many places.</p> <p>3-A clash took place at Chauri Chaura in Uttar Pradesh.</p> <p>4- A group of volunteers picketing a liquor shop were beaten up by a police officer.</p> <p>5- In protest a group of peasants went to the police station bolted the door and set fire to the police station killing 22 policemen.</p> <p>6-The incident shocked Gandhiji and he immediately withdrew the movement.</p>	3
14	<p>i) यह कथन संसाधनों के अंतर्संबंध को दर्शाता है, यह दर्शाता है कि सूखे के कारण पानी की कमी कृषि, खाद्य उपलब्धता, उद्योगों और आजीविका को कैसे प्रभावित कर सकती है, उनकी परस्पर निर्भरता पर जोर देती है।</p> <p>ii) यह स्थिति संसाधन नियोजन की अनुपस्थिति को दर्शाती है, जो पानी की कमी की तैयारी और प्रबंधन में विफलता को उजागर करती है। अपर्याप्त योजना विभिन्न क्षेत्रों में कमजोरियों को बढ़ाती है, जिससे ऐसे संकटों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए रणनीतियों की कमी के कारण मानव कल्याण और आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ता है।</p> <p>i) The statement reflects the interconnectedness of resources, showcasing how a water shortage due to drought can impact agriculture, food availability, industries, and livelihoods, emphasizing their interdependence.</p> <p>ii) This situation signifies the absence of resource planning, revealing a failure to prepare and manage water scarcity. Inadequate planning exacerbates vulnerabilities across sectors, impacting human well-being and economic activities due to a lack of strategies to address such crises comprehensively.</p>	3
15	<p>शिक्षकों के रूप में महिलाओं और पायलटों के रूप में पुरुषों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व इस बात को पुष्ट करता है नौकरी की भूमिकाओं की पारंपरिक धारणाएँ शिक्षण की भूमिका मानी जाती है देखभाल की नौकरी महिलाओं के लिए उपयुक्त है जबकि पायलट की भूमिका को माना जाता है शारीरिक और मानसिक रूप से कठिन काम पुरुषों के लिए आदर्श है।</p> <p>- इसी तरह नर्स की नौकरी महिलाओं से और इंजीनियर की नौकरी पुरुषों से ज्यादा जुड़ी होती है। ये प्रवृत्तियाँ सामाजिक प्रतिनिधित्व करती हैं धारणाएँ और श्रम के लैंगिक विभाजन को कायम रखना।</p>	5

	<p>(समग्र रूप से मूल्यांकन किया जाना है)</p> <p>The over-representation of women as teachers and men as pilots reinforce traditional notions of job roles. The role of teaching is considered a caregiving job suitable for women while the role of pilot is regarded as a physically and mentally demanding job ideal for men.</p> <p>- Similarly, the job of a nurse is associated more with women and the job of an engineer is associated with men. These trends represent social perceptions and perpetuate sexual division of labour.</p> <p>(to be assessed as a whole)</p>	
<p>16</p>	<p>16i- वे विविध लोगों वाले निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। वे विभिन्न जातीय समूहों से संबंधित थे जिनकी संस्कृति एक जैसी नहीं थी।</p> <p>16ii- अल्पाइन क्षेत्र यानी, टायरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड बोहेमिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया</p> <p>16iii-. जर्मन, इतालवी, मग्यार, पोलिश</p> <p>16iv- सम्राट के प्रति सामान्य निष्ठा</p> <p>16i- They were under autocratic monarchies with diverse people. They belonged to different ethnic groups who did not share a common culture.</p> <p>16ii- Alpine regions i.e., Tyrol, Austria and Sudetenland Bohemia, Lombardy and Venetia</p> <p>16iii-. German, Italian, Magyar, Polish</p> <p>16iv- Common allegiance to the emperor</p>	<p>4</p>
<p>17</p>	<p>a) कच्चा तेल किसी देश की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कच्चा तेल उद्योगों, परिवहन और बिजली उत्पादन के लिए एक प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। यह आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है और विकास को गति देता है। कई उद्योग तेल-व्युत्पन्न उत्पादों (प्लास्टिक, रसायन, उर्वरक) पर निर्भर हैं। कच्चे तेल के बिना औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होगा।</p> <p>(बी) कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कई चुनौतियाँ और संभावित समस्याएँ प्रस्तुत करती है। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं: तेल आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए, इसका असर भारत के विदेशी रिज़र्व पर पड़ेगा। वैश्विक तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी असर डाल सकता है। इससे वस्तुओं और सेवाओं की लागत में वृद्धि के साथ उच्च मुद्रास्फीति हो सकती है। तेल आपूर्ति के लिए सीमित संख्या में देशों पर निर्भर रहने से भारत कूटनीतिक और राजनीतिक दबावों के प्रति संवेदनशील हो सकता है। तेल आयात पर बढ़ा हुआ खर्च बुनियादी ढांचे और सामाजिक कार्यक्रमों में निवेश करने की सरकार की क्षमता को सीमित कर सकता है।</p> <p>a) Crude oil plays a pivotal role in a country's development process. Crude oil is a primary energy source for industries, transportation, and power generation. It fuels economic activities and drives growth. Many industries rely on oil-derived products (plastics, chemicals, fertilizers). Without crude oil, industrial production would suffer.</p> <p>(b) India's dependence on crude oil imports presents several challenges and potential problems. Some of them are listed below: Importing oil requires foreign currency. Therefore, it will impact India's foreign reserve. Fluctuations in global oil prices can significantly impact India's economy. It can lead to higher inflation increasing costs for goods and services. Depending on a limited number of countries for oil supplies can make India vulnerable to diplomatic and political pressures. Increased spending on oil imports can limit the government's ability to invest in infrastructure and social programs.</p>	<p>4</p>
<p>18</p>	<p>8ए-चंपारण</p> <p>18बी- कलकत्ता</p> <p>18A-Champaran</p> <p>18B- Calcutta</p> <p>टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर (855 फीट) है। यह उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है।</p> <p>हीराकुंड बांध</p> <p>सिन्धु-गंगा के मैदान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम के साथ-साथ गुजरात के उत्तरी भागों में भी हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है और दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। इसे महानदी के पार बनाया गया था।</p>	

	<p>The Tehri Dam is the tallest dam in India, standing at 260.5 meters (855 ft) tall. It's located on the Bhagirathi River in Uttarakhand.</p> <p>Hirakud Dam</p> <p>Indo-Gangetic plains, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Assam as well as in the northern parts of Gujarat.</p> <p>The Hirakud Dam is located in Odisha and is the world's longest earthen dam. It was built across the Mahanadi River.</p>	
--	---	--